

# Rev

## Chapter 2

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

- 1 Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον: Τάδε λέγει ὁ κρατῶν  
-को स्वर्गदूत -की -में इफिसुस कलीसिया लिख: ये-बातें कहता-है वह-जो थामे-हुए-है  
[G3588](#) [G0032](#) [G3588](#) [G1722](#) [G2181](#) [G1577](#) [G1125](#) [G3592](#) [G3004](#) [G3588](#) [G2902](#)
- τοῦς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν  
-उन सात तारों-को -में -अपने दाहिने-हाथ अपने, वह-जो चलता-है -में बीच -उन  
[G3588](#) [G2033](#) [G0792](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1188](#) [G0846](#) [G3588](#) [G4043](#) [G1722](#) [G3319](#) [G3588](#)
- ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν:  
सात दीवटों -उन सोने-की:  
[G2033](#) [G3087](#) [G3588](#) [G5552](#)

“इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत के नाम यह लिख: “वह जो अपने दाहिने हाथ में सात तारों को धारण करता है तथा जो सात दीपाधारों के बीच विचरण करता है; इस प्रकार कहता है:

- 2 Οἶδα τὰ ἔργα σου, καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ  
मैं-जानता-हूँ -उन कामों-को तेरे, और -उस परिश्रम और -उस धीरज-को तेरे, और  
[G1492](#) [G3588](#) [G2041](#) [G4771](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2873](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5281](#) [G4771](#) [G2532](#)
- ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακοῦς; καὶ ἐπαίρασας τοῦς λέγοντας ἑαυτοῦς  
कि नहीं सह-सकता सहना बुरों-को; और तूने-परखा -उन कहनेवालों-को अपने-आप-को  
[G3754](#) [G3756](#) [G1410](#) [G0941](#) [G2556](#) [G2532](#) [G3985](#) [G3588](#) [G3004](#) [G1438](#)
- ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν, καὶ εὗρες αὐτοῦς ψευθεῖς;  
प्रेरित और नहीं हैं, और तूने-पाया उन्हें झूठे;  
[G0652](#) [G2532](#) [G3756](#) [G1510](#) [G2532](#) [G2147](#) [G0846](#) [G5571](#)

“मैं तेरे कर्मों कठोर परिश्रम और धैर्यपूर्ण सहनशीलता को जानता हूँ तथा मैं यह भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को सहन नहीं कर पाता है तथा तूने उन्हें परखा है जो कहते हैं कि वे प्रेरित हैं किन्तु हैं नहीं। तूने उन्हें झूठा पाया है।

- 3 καὶ ὑπομονήν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου καὶ οὐ,  
और धीरज तुझ-में-है, और तूने-सहा -के-कारण -उस नाम मेरे और नहीं  
[G2532](#) [G5281](#) [G2192](#) [G2532](#) [G0941](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3686](#) [G1473](#) [G2532](#) [G3756](#)
- κεκοπίακες.  
थका।  
[G2872](#)

मैं जानता हूँ कि तुझमें धीरज है और मेरे नाम पर तूने कठिनाइयाँ झेली हैं और तू थका नहीं है।

- 4 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην, ἀφῆκες.  
परन्तु मुझे-है -के-विरुद्ध तेरे, कि -उस प्रेम-को तेरे -उस पहले, तूने-छोड़-दिया।  
[G0235](#) [G2192](#) [G2596](#) [G4771](#) [G3754](#) [G3588](#) [G0026](#) [G4771](#) [G3588](#) [G4413](#) [G0863](#)

“किन्तु मेरे पास तेरे विरोध में यह है: तूने वह प्रेम त्याग दिया है जो आरम्भ में तुझमें था।

- 5 μνημόνευε οὖν πόθεν πάπτωκας, καὶ μετανόησον, καὶ τὰ πρῶτα ἔργα  
 स्मरण-कर इसलिए कहाँ-से तू-गिरा-है, और मन-फिरा, और -वे पहले-के काम  
[G3421](#) [G3767](#) [G4159](#) [G4098](#) [G2532](#) [G3340](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4413](#) [G2041](#)
- ποίησον. εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι, καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ  
 कर। यदि परन्तु नहीं, मैं-आता-हूँ तेरे-पास, और हटा-दूँगा -उस दीवट-को तेरी -से  
[G4160](#) [G1487](#) [G1161](#) [G3361](#) [G2064](#) [G4771](#) [G2532](#) [G2795](#) [G3588](#) [G3087](#) [G4771](#) [G1537](#)
- τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσης.  
 -उस स्थान उसके, यदि नहीं तू-मन-फिराए।  
[G3588](#) [G5117](#) [G0846](#) [G1437](#) [G3361](#) [G3340](#)

सो याद कर कि तू कहाँ से गिरा है, मनफिरा तथा उन कर्मों को कर जिन्हें तू प्रारम्भ में किया करता था, नहीं तो, यदि तूने मन न फिराया, तो मैं तेरे पास आऊँगा और तेरे दीपाधार को उसके स्थान से हटा दूँगा।

- 6 ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ καὶ γὰρ  
 परन्तु यह तुझ-में-है, कि तू-घृणा-करता-है -उन कामों-से -उन निकुलइयों-के, जिनसे मैं-भी  
[G0235](#) [G3778](#) [G2192](#) [G3754](#) [G3404](#) [G3588](#) [G2041](#) [G3588](#) [G3531](#) [G3739](#) [G2504](#)
- μισῶ.  
 घृणा-करता-हूँ।  
[G3404](#)

किन्तु यह बात तेरे पक्ष में है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ।

- 7 Ὁ ἔχων οὖς, ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ  
 जिसके हो कान, वह-सुने क्या -वह आत्मा कहता-है -उन कलीसियाओं-को। -उसे  
[G3588](#) [G2192](#) [G3775](#) [G0191](#) [G5101](#) [G3588](#) [G4151](#) [G3004](#) [G3588](#) [G1577](#) [G3588](#)
- νικῶντι, δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν  
 जयवन्त-को, दूँगा उसे खाने-को -से -उस वृक्ष -उस जीवन-के, जो है -में  
[G3528](#) [G1325](#) [G0846](#) [G5315](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3586](#) [G3588](#) [G2222](#) [G3739](#) [G1510](#) [G1722](#)
- τῷ Παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ.  
 -उस स्वर्गलोक -उस परमेश्वर-के।  
[G3588](#) [G3857](#) [G3588](#) [G2316](#)

“जिसके पास कान हैं, वह उसे सुने जो आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है। जो विजय पाएगा मैं उसे परमेश्वर के उपवन में लगे जीवन के वृक्ष से फल खाने का अधिकार दूँगा।

- 8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον: Τάδε λέγει ὁ  
 और -उस स्वर्गदूत-को -की -में स्मरना कलीसिया लिख: ये-बातें कहता-है वह  
[G2532](#) [G3588](#) [G0032](#) [G3588](#) [G1722](#) [G4667](#) [G1577](#) [G1125](#) [G3592](#) [G3004](#) [G3588](#)
- πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὅς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν:  
 पहला और वह अन्तिम, जो हो-गया मृत और जी-उठा:  
[G4413](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2078](#) [G3739](#) [G1096](#) [G3498](#) [G2532](#) [G2198](#)

“स्मरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख: “वह जो प्रथम है और जो अन्तिम है, जो मर गया था तथा जो पुनर्जीवित हो उठा है, इस प्रकार कहता है:

- 9 Οἶδά σου τὴν θλιψὶν καὶ τὴν πτωχείαν -- ἀλλὰ πλούσιος εἶ -- καὶ  
 मैं-जानता-हूँ तेरा -वह क्लेश और -वह कंगाली- परन्तु धनवान तू-है- और  
[G1492](#) [G4771](#) [G3588](#) [G2347](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4432](#) [G0235](#) [G4145](#) [G1510](#) [G2532](#)
- τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτοῦς, καὶ οὐκ  
 -वह निन्दा -से -उन कहनेवालों-की यहूदी होना अपने-आप-को, और नहीं  
[G3588](#) [G0988](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3004](#) [G2453](#) [G1510](#) [G1438](#) [G2532](#) [G3756](#)
- εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγῆ τοῦ Σατανᾶ.  
 हैं, परन्तु सभा -के शैतान-की।  
[G1510](#) [G0235](#) [G4864](#) [G3588](#) [G4567](#)

“मैं तुम्हारी यातना और तुम्हारी दीनता के विषय में जानता हूँ। यद्यपि वास्तव में तुम धनवान हो! जो अपने आपको यहूदी कह रहे हैं, उन्होंने तुम्हारी जो निन्दा की है, मैं उसे भी जानता हूँ। यद्यपि वे यहूदी हैं नहीं। बल्कि वे तो उपासकों का एक ऐसा जमघट हैं जो शैतान से सम्बन्धित है।

- 10 μηδέν φοβού ἄ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ, μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος  
कुछ-भी मत-डर जो तुझे-होनेवाला-है सहना। देख, होनेवाला-है डालना -वह शैतान  
[G3367](#) [G5399](#) [G3739](#) [G3195](#) [G3958](#) [G3708](#) [G3195](#) [G0906](#) [G3588](#) [G1228](#)
- ἐξ ὕμῶν εἰς φυλακὴν, ἵνα πειρασθῆτε; καὶ ἔξετε θλίψιν ἡμερῶν δέκα.  
-में-से तुम -में बंदीगृह, ताकि तुम-परखे-जाओ; और तुम्हें-होगा क्लेश दिनों दस।  
[G1537](#) [G4771](#) [G1519](#) [G5438](#) [G2443](#) [G3985](#) [G2532](#) [G2192](#) [G2347](#) [G2250](#) [G1176](#)
- γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.  
हो विश्वासयोग्य तक मृत्यु, और दूंगा तुझे -वह मुकुट -उस जीवन-का।  
[G1096](#) [G4103](#) [G0891](#) [G2288](#) [G2532](#) [G1325](#) [G4771](#) [G3588](#) [G4735](#) [G3588](#) [G2222](#)

उन यातनाओं से तू बिल्कुल भी मत डर जो तुझे झेलनी हैं। सुनो, शैतान तुम लोगों में से कुछ को बंदीगृह में डालकर तुम्हारी परीक्षा लेने जा रहा है। और तुम्हें वहाँ दस दिन तक यातना भोगनी होगी। चाहे तुझे मर ही जाना पड़े, पर सच्चा बने रहना मैं तुझे अनन्त जीवन का विजय मुकुट प्रदान करूँगा।

- 11 Ὁ ἔχων οὖς, ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Ὁ  
जिसके ही कान, वह-सुने क्या -वह आत्मा कहता-है -उन कलीसियाओं-को। जो  
[G3588](#) [G2192](#) [G3775](#) [G0191](#) [G5101](#) [G3588](#) [G4151](#) [G3004](#) [G3588](#) [G1577](#) [G3588](#)
- νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῆ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.  
जयवन्त-होगा नहीं कदापि हानि-उठाएगा -से -उस मृत्यु -उस दूसरी-से।  
[G3528](#) [G3756](#) [G3361](#) [G0091](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2288](#) [G3588](#) [G1208](#)

“जो सुन सकता है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। जो विजयी होगा उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं उठानी होगी।

- 12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον: Τάδε λέγει ὁ  
और -उस स्वर्गदूत-को -की -में पिरगमुन कलीसिया लिख: ये-बातें कहता-है वह-जो  
[G2532](#) [G3588](#) [G0032](#) [G3588](#) [G1722](#) [G4010](#) [G1577](#) [G1125](#) [G3592](#) [G3004](#) [G3588](#)
- ἔχων τὴν ρόμφαιαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν:  
रखता-है -वह तलवार -वह दोधारी -वह तीखी:  
[G2192](#) [G3588](#) [G4501](#) [G3588](#) [G1366](#) [G3588](#) [G3691](#)

“पिरगमुन की कलीसिया के स्वर्गदूत यह लिख: “वह जो तेज दोधारी तलवार को धारण करता है, इस प्रकार कहता है:

- 13 Οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ; καὶ κρατεῖς τὸ  
मैं-जानता-हूँ कहाँ तू-रहता-है, जहाँ -वह सिंहासन -का शैतान-का; और तू-थामे-हुए-है -वह  
[G1492](#) [G4226](#) [G2730](#) [G3699](#) [G3588](#) [G2362](#) [G3588](#) [G4567](#) [G2532](#) [G2902](#) [G3588](#)
- ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις  
नाम मेरा, और नहीं तूने-इन्कार-किया -उस विश्वास-को मेरे, और -में -उन दिनों-में  
[G3686](#) [G1473](#) [G2532](#) [G3756](#) [G0720](#) [G3588](#) [G4102](#) [G1473](#) [G2532](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2250](#)
- Ἀντιπᾶς, ὁ μάρτυς μου, ὁ πιστός μου ὅς ἀπεκτάνθη παρ’ ὕμῶν,  
अन्तिपास, -वह साक्षी मेरा, -वह विश्वासयोग्य मेरा जो मार-डाला-गया -के-बीच तुम्हारे,  
[G0493](#) [G3588](#) [G3144](#) [G1473](#) [G3588](#) [G4103](#) [G1473](#) [G3739](#) [G0615](#) [G3844](#) [G4771](#)
- ὅπου ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ.  
जहाँ -वह शैतान रहता-है।  
[G3699](#) [G3588](#) [G4567](#) [G2730](#)

“मैं जानता हूँ तू कहाँ रह रहा है। तू वहाँ रह रहा है जहाँ शैतान का सिंहासन है और मैं यह भी जानता हूँ कि तू मेरे नाम को थामे हुए है तथा तूने मेरे प्रति अपने विश्वास को कभी नहीं नकारा है। तुम्हारे उस नगर में जहाँ शैतान का निवास है, मेरा विश्वासपूर्ण साक्षी अन्तिपास मार दिया गया था।

- 14 ἀλλ' ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα; ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν  
 परन्तु मुझे-है -के-विरुद्ध तेरे थोड़ी-बातें; कि तुझ-में-हैं वहाँ माननेवाले -उस शिक्षा-को  
[G0235](#) [G2192](#) [G2596](#) [G4771](#) [G3641](#) [G3754](#) [G2192](#) [G1563](#) [G2902](#) [G3588](#) [G1322](#)
- Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν  
 बिलाम-की, जिसने सिखाया -उस बालाक-को डालना ठोकर सामने -उन पुत्रों-के  
[G0903](#) [G3739](#) [G1321](#) [G3588](#) [G0904](#) [G0906](#) [G4625](#) [G1799](#) [G3588](#) [G5207](#)
- Ἰσραήλ, φαγεῖν εἰδωλόθυτα, καὶ πορνεῦσαι.  
 इस्राएल-के, खाना मूर्तियों-की-बलि, और व्यभिचार-करना।  
[G2474](#) [G5315](#) [G1494](#) [G2532](#) [G4203](#)

“कुछ भी हो, मेरे पास तेरे विरोध में कुछ बातें हैं। तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिलाम की सीख पर चलते हैं। उसने बालाक को सिखाया था कि वह इस्राएल के लोगों को मूर्तियों का चढ़ावा खाने और व्यभिचार करने को प्रोत्साहित करे।

- 15 οὕτως ἔχεις καὶ σὺ, κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν ὁμοίως,  
 इसी-प्रकार तुझ-में-हैं भी तू, माननेवाले -उस शिक्षा-को -उन निकुलइयों-की उसी-प्रकार।  
[G3779](#) [G2192](#) [G2532](#) [G4771](#) [G2902](#) [G3588](#) [G1322](#) [G3588](#) [G3531](#) [G3668](#)
- इसी प्रकार तेरे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो निकुलइयों की सीख पर चलते हैं।

- 16 μετανόησον οὖν! εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ'  
 मन-फिरा इसलिए! यदि परन्तु नहीं, मैं-आता-हूँ तेरे-पास शीघ्र, और युद्ध-करूँगा -के-साथ  
[G3340](#) [G3767](#) [G1487](#) [G1161](#) [G3361](#) [G2064](#) [G4771](#) [G5035](#) [G2532](#) [G4170](#) [G3326](#)
- αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ, τοῦ στόματός μου.  
 उनके -से -उस तलवार, -उस मुख-की मेरे।  
[G0846](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4501](#) [G3588](#) [G4750](#) [G1473](#)

इसलिए मन फिरा नहीं तो मैं जल्दी ही तेरे पास आऊँगा और उनके विरोध में उस तलवार से युद्ध करूँगा जो मेरे मुख से निकलती है।

- 17 Ὁ ἔχων οὖς, ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ  
 जिसके हो कान, वह-सुने क्या -वह आत्मा कहता-है -उन कलीसियाओं-को। -उसे  
[G3588](#) [G2192](#) [G3775](#) [G0191](#) [G5101](#) [G3588](#) [G4151](#) [G3004](#) [G3588](#) [G1577](#) [G3588](#)
- νικῶντι, δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου; καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον  
 जयवन्त-को, दूँगा उसे -उस मन्ना -उस गुप्त-में-से; और दूँगा उसे पत्थर  
[G3528](#) [G1325](#) [G0846](#) [G3588](#) [G3131](#) [G3588](#) [G2928](#) [G2532](#) [G1325](#) [G0846](#) [G5586](#)
- λευκῆν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν,  
 श्वेत, और -पर -उस पत्थर नाम नया लिखा-हुआ, जो कोई-नहीं जानता,  
[G3022](#) [G2532](#) [G1909](#) [G3588](#) [G5586](#) [G3686](#) [G2537](#) [G1125](#) [G3739](#) [G3762](#) [G1492](#)
- εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.  
 सिवाय -के -उस पानेवाले-के।  
[G1487](#) [G3361](#) [G3588](#) [G2983](#)

“जो सुन सकता है, वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है! “जो विजयी होगा, मैं उसे स्वर्ग में छिपा मन्ना दूँगा। मैं उसे एक श्वेत पत्थर भी दूँगा जिस पर एक नया नाम अंकित होगा। जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता जिसे वह दिया गया है।

- 18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον: Τάδε λέγει ὁ  
 और -उस स्वर्गदूत-को -की -में थुआतीरा कलीसिया लिख: ये-बातें कहता-है -वह  
[G2532](#) [G3588](#) [G0032](#) [G3588](#) [G1722](#) [G2363](#) [G1577](#) [G1125](#) [G3592](#) [G3004](#) [G3588](#)
- Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός,  
 पुत्र -उस परमेश्वर-का, वह-जो रखता-है -वे आँखें अपनी जैसी लौ आग-की,  
[G5207](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G2192](#) [G3588](#) [G3788](#) [G0846](#) [G5613](#) [G5395](#) [G4442](#)
- καὶ οἱ παόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ.  
 और -वे पाँव उसके समान चमकीले-पीतल-के।  
[G2532](#) [G3588](#) [G4228](#) [G0846](#) [G3664](#) [G5474](#)

“थूआतीरा की कलीसिया के स्वर्गदूत के नाम: “परमेश्वर का पुत्र, जिसके नेत्र धधकती आग के समान हैं, तथा जिसके चरण शुद्ध काँसे के जैसे हैं, इस प्रकार कहता है:

- 19 Οἶδά σου τὰ ἔργα, καὶ τὴν ἀγάπην, καὶ τὴν πίστιν, καὶ τὴν  
 मैं-जानता-हूँ तेरे -वे काम, और -वह प्रेम, और -वह विश्वास, और -वह  
[G1492](#) [G4771](#) [G3588](#) [G2041](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0026](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4102](#) [G2532](#) [G3588](#)
- διακονίαν, καὶ τὴν ὑπομονήν σου; καὶ τὰ ἔργα σου, τὰ ἔσχατα πλείονα  
 सेवा, और -वह धीरज तेरा; और -वे काम तेरे, -वे अन्तिम अधिक-हैं  
[G1248](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5281](#) [G4771](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2041](#) [G4771](#) [G3588](#) [G2078](#) [G4119](#)
- τῶν πρώτων.  
 -उन पहले-से।  
[G3588](#) [G4413](#)

“मैं तेरे कर्मों, तेरे विश्वास, तेरी सेवा तथा तेरी धैर्यपूर्ण सहनशक्ति को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि अब तू जितना पहले किया करता था, उससे अधिक कर रहा है।

- 20 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ, ἢ λέγουσα  
 परन्तु मुझे-है -के-विरुद्ध तेरे कि तू-सहता-है -उस स्त्री-को इजेबेल, जो कहती-है  
[G0235](#) [G2192](#) [G2596](#) [G4771](#) [G3754](#) [G0863](#) [G3588](#) [G1135](#) [G2403](#) [G3588](#) [G3004](#)
- ἐαυτὴν προφήτην, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι,  
 अपने-आप-को भविष्यवक्तिन, और सिखाती-है और भ्रमाती-है -उन मेरे दासों-को व्यभिचार-करने,  
[G1438](#) [G4398](#) [G2532](#) [G1321](#) [G2532](#) [G4105](#) [G3588](#) [G1699](#) [G1401](#) [G4203](#)
- καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.  
 और खाने मूर्तियों-की-बलि।  
[G2532](#) [G5315](#) [G1494](#)

किन्तु मेरे पास तेरे विरोध में यह है: तू इजेबेल नाम की उस स्त्री को सह रहा है जो अपने आपको नबी कहती है। अपनी शिक्षा से वह मेरे सेवकों को व्यभिचार के प्रति तथा मूर्तियों का चढ़ावा खाने को प्रेरित करती है।

- 21 καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ  
 और मैंने-दिया उसे समय ताकि वह-मन-फिराए, और नहीं चाहती मन-फिराना -से  
[G2532](#) [G1325](#) [G0846](#) [G5550](#) [G2443](#) [G3340](#) [G2532](#) [G3756](#) [G2309](#) [G3340](#) [G1537](#)
- τῆς πορνείας αὐτῆς.  
 -उस व्यभिचार अपने।  
[G3588](#) [G4202](#) [G0846](#)

मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया है किन्तु वह परमेश्वर के प्रति व्यभिचार के लिए मन फिराना नहीं चाहती।

- 22 ἰδοὺ, βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ’ αὐτῆς  
 देख, मैं-डालता-हूँ उसे -में बिछौना, और -उन व्यभिचार-करनेवालों-को -के-साथ उसके  
[G3708](#) [G0906](#) [G0846](#) [G1519](#) [G2825](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3431](#) [G3326](#) [G0846](#)
- εἰς θλίψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς.  
 -में क्लेश बड़ा, यदि नहीं वे-मन-फिराएँ -से -उन कामों उसके।  
[G1519](#) [G2347](#) [G3173](#) [G1437](#) [G3361](#) [G3340](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2041](#) [G0846](#)

“इसलिए अब मैं उसे पीड़ा की शैया पर डालने ही वाला हूँ। तथा उन्हें भी जो उसके साथ व्यभिचार में सम्मिलित हैं। ताकि वे उस समय तक गहन पीड़ा का अनुभव करते रहें जब तक वे उसके साथ किए अपने बुरे कर्मों के लिए मन न फिरावें।

23 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ; καὶ γινώσκονται πᾶσαι αἱ  
 और -उन बच्चों-को उसके मैं-मार-डालूँगा -से मृत्यु; और जानेंगी सब -वे  
[G2532](#) [G3588](#) [G5043](#) [G0846](#) [G0615](#) [G1722](#) [G2288](#) [G2532](#) [G1097](#) [G3956](#) [G3588](#)

ἐκκλησίαι, ὅτι ἐγὼ εἰμι ὁ ἐραυνῶν νεφρούς καὶ καρδίας; καὶ δώσω  
 कलीसियाएँ, कि मैं हूँ वह-जो जाँचता-है गुर्दों और हृदयों-को; और दूँगा  
[G1577](#) [G3754](#) [G1473](#) [G1510](#) [G3588](#) [G2045](#) [G3510](#) [G2532](#) [G2588](#) [G2532](#) [G1325](#)

ὑμῶν ἐκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν.  
 तुम्हें प्रत्येक-को -के-अनुसार -उन कामों तुम्हारे।  
[G4771](#) [G1538](#) [G2596](#) [G3588](#) [G2041](#) [G4771](#)

मैं महामारी से उसके बच्चों को मार डालूँगा और सभी कलीसियाओं को यह पता चल जाएगा कि मैं वही हूँ जो लोगों के मन और उनकी बुद्धि को जानता है। मैं तुम सब लोगों को तुम्हारे कर्मों के अनुसार दूँगा।

24 ὑμῖν δὲ λέγω, τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν  
 तुम्हें परन्तु मैं-कहता-हूँ, -उन शेष-को -उन -में थुआतीरा, जितने नहीं रखते-हैं  
[G4771](#) [G1161](#) [G3004](#) [G3588](#) [G3062](#) [G3588](#) [G1722](#) [G2363](#) [G3745](#) [G3756](#) [G2192](#)

τὴν διδαχὴν ταύτην, οἳτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθεῖα τοῦ Σατανᾶ, ὡς  
 -इस शिक्षा-को इस, जिन्होंने नहीं जाना -उन गहरी-बातों-को -उस शैतान-की, जैसे  
[G3588](#) [G1322](#) [G3778](#) [G3748](#) [G3756](#) [G1097](#) [G3588](#) [G0901](#) [G3588](#) [G4567](#) [G5613](#)

λέγουσιν; οὐ βάλλω ἐφ' ὑμᾶς ἄλλο βᾶρος.  
 वे-कहते-हैं; नहीं डालता-हूँ -पर तुम अन्य भार।  
[G3004](#) [G3756](#) [G0906](#) [G1909](#) [G4771](#) [G0243](#) [G0922](#)

“अब मुझे थुआतीरा के उन शेष लोगों से कुछ कहना है जो इस सीख पर नहीं चलते और जो शैतान के तथा कथित गहन रहस्यों को नहीं जानते। मुझे तुम पर कोई और बोझ नहीं डालना है।

25 πλὴν ὁ ἔχετε, κρατήσατε ἄχρι οὗ ἂν ἴξω.  
 तौभी जो तुम्हारे-पास-है, थामे-रहो जब-तक -कि - मैं-आऊँ।  
[G4133](#) [G3739](#) [G2192](#) [G2902](#) [G0891](#) [G3739](#) [G0302](#) [G2240](#)

किन्तु जो तुम्हारे पास है, उस पर मेरे आने तक चलते रहो।

26 Καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω  
 और जो जयवन्त-होगा और जो मानता-रहेगा तक अन्त -वे काम मेरे, दूँगा  
[G2532](#) [G3588](#) [G3528](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5083](#) [G0891](#) [G5056](#) [G3588](#) [G2041](#) [G1473](#) [G1325](#)

αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν,  
 उसे अधिकार -पर -उन जातियों-पर,  
[G0846](#) [G1849](#) [G1909](#) [G3588](#) [G1484](#)

“जो विजय प्राप्त करेगा और जिन बातों का मैंने आदेश दिया है, अंत तक उन पर टिका रहेगा, मैं उन्हें जातियों पर अधिकार दूँगा।

27 καὶ ποιμανεῖ αὐτούς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ  
 और वह-चराएगा उन्हें -से लाठी लोहे-की, जैसे -वे बर्तन -वे मिट्टी-के  
[G2532](#) [G4165](#) [G0846](#) [G1722](#) [G4464](#) [G4603](#) [G5613](#) [G3588](#) [G4632](#) [G3588](#) [G2764](#)

συντρίβεται; ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ Πατρός, μου  
 तोड़े-जाते-हैं; जैसे मैंने-भी पाया-है -से -उस पिता मेरे।  
[G4937](#) [G5613](#) [G2504](#) [G2983](#) [G3844](#) [G3588](#) [G3962](#) [G1473](#)

तथा वह उन पर लोहे के डण्डे से शासन करेगा। वह उन्हें माटी के भाँड़ों की तरह चूर-चूर कर देगा।

28 καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωῖνόν.  
 और दूँगा उसे -वह तारा -वह भोर-का।  
[G2532](#) [G1325](#) [G0846](#) [G3588](#) [G0792](#) [G3588](#) [G4407](#)

यह वही अधिकार है जिसे मैंने अपने परम पिता से पाया है। मैं भी उस व्यक्ति को भोर का तारा दूँगा।

29 Ὁ ἔχων οὖς, ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.  
जिसके ही कान, वह-सुने क्या -वह आत्मा कहता-है -उन कलीसियाओं-को।  
[G3588](#) [G2192](#) [G3775](#) [G0191](#) [G5101](#) [G3588](#) [G4151](#) [G3004](#) [G3588](#) [G1577](#)

| जिसके पास कान हैं, वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है।